



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड POWER FINANCE CORPORATION LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

(आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित)

(ISO 9001:2015 Certified)

प्रेस विज्ञप्ति

21 अगस्त, 2021



अगरतला, 21 अगस्त 2021: एक अन्य पहल में, आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, 2X8 एमवीए, 33 /11 केवी सबस्टेशनों का उद्घाटन आज त्रिपुरा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देव वर्मा द्वारा उत्तरी त्रिपुरा के धर्मनगर और कुमारघाट जिलों (21 अगस्त 2021) श्री बिस्वा बंधु सेन, माननीय उपाध्यक्ष, त्रिपुरा विधान सभा, श्री भाबातोष दास, जिला सभादीपति, उत्तरी त्रिपुरा, और डॉ एम.एस.केले, प्रबंध निदेशक, त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और श्री देबाशीष सरकार, निदेशक (तकनीकी) टीएसईसीएल की उपस्थिति में किया गया।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम, आईपीडीएस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड POWER FINANCE CORPORATION LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

(आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित)

(ISO 9001:2015 Certified)

इस कार्यक्रम में पीएफसी, टीएसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, उपभोक्ता और मीडिया भी शामिल हुए। उद्घाटन की शुरुआत स्थानीय कलाकारों द्वारा एक सांस्कृतिक गीत और नृत्य की प्रस्तुति के साथ हुई, जिसके बाद स्कूली बच्चों के लिए कोविड-19 नियमों के एसओपी के अंतर्गत 'भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष' विषय पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता हुई। पीएफसी ने सद्भावना के रूप में विजेता बच्चों को नकद पुरस्कार वितरित किए।

धर्मनगर की कुल परियोजना लागत ₹7.18 करोड़ है। कुल लाभार्थी 11287 हैं जबकि कुमारघाट सबस्टेशन की कुल परियोजना लागत ₹7.09 करोड़ है और इससे 8897 लोग और उनके परिवार प्रभावित होंगे।

जहां एक ओर, परियोजनाओं के कार्यान्वयन से विद्युत संस्था के राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर, लोड शेडिंग और एटी एंड सी घाटे को कम किया जाएगा जिससे त्रिपुरा के लोगों को लाभ होगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कुल परियोजना लागत का 85% प्रदान करती है।

हस्ता/-

(एस.एस.राव)

मुख्य महाप्रबंधक (पीआर)